

बड़े अक्षरों में भरा जाए  
TO BE FILLED IN CAPITAL LETTERS

सोल आई. डी  
Sol ID.

नीले बॉक्स बैंक द्वारा भरे जाएं:  
Blue Boxes are to be  
Filled by Bank:

संगलन दस्तावेजों की संख्या  
No. of Document attached

ग्राहक आईडी, Customer ID.

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया  
Union Bank of India

व्यक्तियों से इतर के लिये खाता खोलने का फार्म  
ACCOUNT OPENING FORM FOR OTHER THAN INDIVIDUALS

खाता क्र. Account No.

डेबिट कार्ड नं Debit Card No.

लीड आई.डी. Lead ID.

<input type="checkbox"/> बचत खाता Saving Account	<input type="checkbox"/> चालू खाता Current Account	<input type="checkbox"/> मीयादी जमा खाता Term Deposit Account	<input type="checkbox"/> अन्य Others	खाते का उद्देश्य Purpose of Account
खाता योजना Account Scheme	मीयादी जमा हेतु: राशि For Term Deposit: Amount ₹	अवधि Period	माह Months	दिन Days

1. खाते का ब्यौरा: Account Details:

खाते का नाम  
Name of Account

गठन के प्रकार पर निशान लगायें:

Please tick type of Constitution:

पैन नं

PAN No.

<input type="checkbox"/> एसोसिएशन/सोसाइटी/एस एच जी/क्लब Association/Society/SHG/Club	<input type="checkbox"/> ट्रस्ट Trust	<input type="checkbox"/> प्रा लिमि. कंपनी Pvt. Ltd. Co.	<input type="checkbox"/> पब्लिक लिमि. कंपनी Public Ltd. Co.	<input type="checkbox"/> भागीदारी Partnership	<input type="checkbox"/> संयुक्त हिंदू परिवार HUF
<input type="checkbox"/> एकल स्वामित्व Sole Proprietorship	<input type="checkbox"/> बैंकिंग कंपनी Banking Co.	<input type="checkbox"/> संयुक्त उपक्रम/पूर्णत स्वामित्व वाली कंपनी JV/Wholly owned Co.	<input type="checkbox"/> एल.एल.पी L.L.P.	<input type="checkbox"/> धारा 25 कंपनियों Section 25 Co.	<input type="checkbox"/> स्थानीय निकाय और सरकारी विभाग/पीएसयू Local Bodies and Govt. Department/PSU

एकल स्वामी/भागीदारों/निदेशकों/हस्ताक्षरकर्ताओं के नाम  
Name of Sole Proprietor/Partners/Directors/Signatories

हस्ताक्षरकर्ताओं की जानकारी उपलब्ध कराने के लिए अलग फार्म का उपयोग करें. (सीआईएफ-1)  
Use separate forms for providing information of signatory. (CIF-1)

हस्ताक्षरकर्ता Signatory 1 ग्राहक आईडी. Customer ID.

उपाधि Title प्रथम नाम First Name मध्य नाम Middle Name अंतिम नाम Last Name

हस्ताक्षरकर्ता Signatory 2 ग्राहक आईडी. Customer ID.

हस्ताक्षरकर्ता Signatory 3 ग्राहक आईडी. Customer ID.

हस्ताक्षरकर्ता Signatory 4 ग्राहक आईडी. Customer ID.

\* यदि किसी हस्ताक्षरकर्ता के पूर्व में प्रस्तुत पते/व्यक्तिगत जानकारी में परिवर्तन है तो कृपया "आवेदक की जानकारी" फार्म भरें (सीआईएफ-1)  
\* If address/personal information of any signatory furnished earlier has changed, please fill "Information of Applicant" form (CIF-1)

2. पत्राचार का पता: Communication Address:

नगर/जिला City/District राज्य State

पिन Pin फोन नं Phone No. मोबाइल नं Mobile No.

ई-मेल आईडी E-Mail ID

पंजीकृत कार्यालय (सार्वजनिक/निजी लिमिटेड कंपनियों के मामले में) Registered Office (In case of Public/Pvt. Ltd. Company)

नगर/जिला City/District राज्य State

पिन Pin फोन नं Phone No. मोबाइल नं Mobile No.

ई-मेल आईडी E-Mail ID

### 3. अपने ग्राहक को जानने संबंधी ब्यौरा: Know Your Customer (KYC) Details:

#### संघों/समितियों/स्वयं सहायता समूहों/क्लबों हेतु For Associations/Societies/SHGs/Clubs

- |   |  |  |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> पंजीयन प्रमाणपत्र (यदि पंजीकृत है)<br>Certificate of registration(if registered) | <input type="checkbox"/> समिति के उप-नियम/न्यास विलेख<br>Bye-laws of society/Trust deed                                    | <input type="checkbox"/> खाता खोलने एवं संचालन के लिए<br>संघ की प्रबंध समिति का संकल्प<br>Resolution of the managing committee of the<br>association for opening & operating the account |
| <input type="checkbox"/> प्रबंधन समिति के सदस्यों की सूची<br>List of managing committee members           | <input type="checkbox"/> संगठन के नाम पर टेलीफोन/उपयोगिता बिल<br>Telephone/utility bill in the name of<br>the organization |  |

#### स्वयं सहायता समूह हेतु For Self Help Group

- |   |   |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> खाता खोलने एवं परिचालन के<br>लिए संकल्प<br>Resolution for opening & operating<br>the account | <input type="checkbox"/> सदस्यों की सूची<br>List of members |
|---|---|

#### न्यास हेतु For Trust

- |  |  |  |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> पंजीयन प्रमाणपत्र, न्यास विलेख/<br>निर्माता घोषणा<br>Certificate of registration,<br>Trust Deed/settlers' declaration | <input type="checkbox"/> खाता खोलने एवं संचालन के लिए<br>न्यास की प्रबंध समिति का संकल्प<br>Resolution of the managing committee of the<br>Trust for opening & operating the account | <input type="checkbox"/> न्यासियों की सूची<br>List of trustees |
| <input type="checkbox"/> न्यास के नाम पर टेलीफोन/उपयोगिता बिल<br>Telephone/utility bill in the name of the Trust                               |  |  |

#### सार्वजनिक/निजी लिमिटेड कंपनियों हेतु/धारा 25 कंपनियों/बैंकिंग कंपनियों/संयुक्त उपक्रम/पूर्णत स्वामित्व वाली कंपनी For Public/Private Limited Companies/Section 25 Companies/Banking Companies/JV/Wholly owned Companies

- |   |  |  |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> संस्था के बहिनियम और अंतनियम<br>Memorandum & articles of association                         | <input type="checkbox"/> निगमन प्रमाणपत्र<br>Certificate of incorporation      | <input type="checkbox"/> खाता खोलने के लिए जारी<br>निदेशक मंडल का संकल्प/मुख्तारनामा<br>Resolution of Board of directors/<br>Power of attorney issued to open the account        |
| <input type="checkbox"/> कंपनी के नाम पर टेलीफोन/उपयोगिता बिल<br>Telephone/Utility bill in the name of<br>the company | <input type="checkbox"/> निदेशकों की वर्तमान सूची<br>Current list of directors | <input type="checkbox"/> केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी लाइसेंस की प्रति<br>(सिर्फ धारा 25 कंपनियों हेतु)<br>Copy of Licence issued by Central Government<br>(Only for Sec. 25 Co.) |

#### भागीदारी फर्म/एल एल पी हेतु For Partnership firm/LLP

- |   |  |  |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> पंजीयन प्रमाणपत्र (यदि पंजीकृत है)<br>Registration Certificate (if registered) | <input type="checkbox"/> भागीदारी घोषणा<br>Partnership declaration   | <input type="checkbox"/> फर्म के नाम पर टेलीफोन/उपयोगिता बिल<br>Telephone/Utility bill in the name of the firm |
| <input type="checkbox"/> भागीदारी विलेख<br>Partnership Deed   | <input type="checkbox"/> पदनामित भागीदार पहचान संख्या (सिर्फ एल एल पी हेतु)<br>Designated Partner Identification Number (Only for LLP) |  |

#### हिंदु अविभक्त परिवार हेतु For Hindu Undivided Family

- |  |  |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> सहदायिकों द्वारा हस्ताक्षरित एचयूएफ पत्र<br>HUF letter signed by co-parceners | <input type="checkbox"/> कर्ता से घोषणा फार्म<br>Declaration form from Karta |
|--|--|

#### एकल स्वामित्व खाता हेतु (निम्नलिखित में कोई दो) For Sole Proprietorship Account (any two of Following)

- |  |   |  |
|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> पंजीकरण प्रमाणपत्र<br>Certificate of Registration | <input type="checkbox"/> दुकान/प्रतिष्ठान/म्यूनिसिपल लाइसेंस<br>Shop/Establishment/Municipal Licence  | <input type="checkbox"/> बिक्री/आयकर विवरणियां<br>Sales/Income Tax returns |
| <input type="checkbox"/> सीएसटी/वैट प्रमाणपत्र<br>CST/VAT Certificate      | <input type="checkbox"/> व्यावसायिक/सरकारी निकाय द्वारा जारी प्रमाणपत्र<br>Certificate/Licence issued by professional<br>/Government Bodies | <input type="checkbox"/> आयात/निर्यात कोड<br>Import Export Code            |

#### स्थानीय निकाय/सरकारी विभागों/पीएसयू हेतु For local Bodies/Government Departments/PSU

- |  |   |  |
|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> सांविधिक आधिसूचना<br>Statutory notification | <input type="checkbox"/> संकल्प<br>Resolution | <input type="checkbox"/> खाता खोलने एवं संचालन के लिए अनुमति पत्र<br>Letter of permission for opening and<br>operating the account |
|--|---|--|

#### 4. आवेदक सूचना: Applicant Information:

व्यापार Trading  विनिर्माण Manufacturing  सेवाएं Services  कृषि Agriculture कृपया निर्दिष्ट करें Please Specify \_\_\_\_\_ कूट Code

वर्तमान ऋण सुविधाएं, (यदि हो) Existing Loan Facilities, (If any)  वाहन ऋण Vehicle loan  कारोबार ऋण Business loan  कैश क्रेडिट लिमिट Cash-Credit limit

प्रदाता From  यूनियन बैंक UBI  अन्य Others  यूनियन बैंक UBI  अन्य Others  यूनियन बैंक UBI  अन्य Others

अन्य बैंक/यूनियन खाता Other Bank/Union Bank Account

खाता क्रं.1 A/c No.1  खाता क्रं.2 A/c No.2

बैंक Bank  शाखा Branch  बैंक Bank  शाखा Branch

#### 5. यूनियन बैंक के वर्तमान ग्राहक द्वारा परिचय: Introduction by Existing Union Bank Customer:

खाते का नाम Name of Account

खाता क्र. Account No.  ग्राहक आईडी, Customer ID

मोबाइल नं. Mobile No.

मैं/हम पुष्टि करता/करती हूँ/करते हैं कि मैं/हम यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का/के 6 माह से अधिक समय से खातेदार हूँ/हैं. मैं/हम पुष्टि करता/करती हूँ/करते हैं कि मैं/हम ऊपर दिये गये नाम के आवेदक (को) को  साल  माह से जानता/जानती हूँ/जानते हैं तथा आवेदन में दी गयी उसकी/पहचान, व्यवसाय तथा पते की पुष्टि करता हूँ/करते हैं.

I/We confirm that I am/are an account holder with Union Bank of India for over six months. I/We confirm that I/We know the applicant/s detailed above for  years  months and confirm his/her/their identity, occupation & address as stated in the application.

दिनांक Date          
स्थान Place

परिचयकर्ता के हस्ताक्षर मोहर के साथ  
Signature of Introducer with seal

बैंक के प्रयोग के लिए For Bank Use :

परिचयकर्ता के हस्ताक्षर सत्यापनकर्ता Signature of introducer verified by

नाम Name

हस्ताक्षर Signature

#### 6. खाता खोलने के लिए भुगतान का ब्यौरा: Payment Details for Opening Account:

राशि Amount ₹   नकद Cash  नामे खाता संख्या Debit Account No.

चेक संख्या Cheque No.  बैंक Bank  शाखा Branch

#### 7. अपेक्षित सुविधाएं: Facilities Required:

निम्नलिखित सेवाओं का लाभ चाहिये तो संबंधित खाने में निशान लगायें.

Please tick in the respective boxes if You wish to avail the following facilities

ई-मेल से विवरण  
Statement by E-mail

अनुमानित विदेशी प्रेषण  
Foreign remittances expected

देश का कूट  
Country Code

खाते में अनुमानित वार्षिक टर्नओवर  
Expected Annual Turnover in the account

<10लाख <10Lacs  10लाख-<50लाख 10Lacs-<50Lacs  50लाख-<1करोड़ 50Lacs-<1Cr  1करोड़-<5करोड़ 1Cr-<5Cr  5करोड़-<10करोड़ 5Cr-<10Cr  10करोड़-<25करोड़ 10Cr-<25Cr  25करोड़-<50करोड़ 25Cr-<50Cr  50करोड़-<100करोड़ 50Cr-<100Cr  >100करोड़ >100Cr

मीयादी जमा राशि नवीकरण अनुदेश: Term Deposit Renewal Instructions:

मैं/हम बैंक को अधिकृत करते हैं कि मेरी/हमारी जमाराशि को परिपक्वता तारीख पर उपचित ब्याज के साथ लागू ब्याज दर पर यदि मेरे/हमारे द्वारा अन्यथा सूचना नहीं देने पर इतनी ही अवधि कि लिए स्वतः नवीकरण करे. I/We authorize the Bank to automatically renew the deposit with accrued interest for the same period on the maturity date at the prevailing rate of interest unless otherwise informed by me/us.

ब्याज भुगतान की आवृत्ति: Interest Payment Frequency:  मासिक Monthly  त्रैमासिक Quarterly  अर्धवार्षिक Halfyearly  वार्षिक Yearly

ब्याज/परिपक्वता भुगतान अनुदेश: Interest/Maturity Payment Instructions:

बचत/चालू खाता क्र. को अंतरण  
Transfer to Savings/Current Account No.

एन इ एफ टी/आर टी जी एस द्वारा  
By NEFT/RTGS

लाभार्थी बैंक Beneficiary Bank  शाखा Branch  खाता क्र. Account No.

## 8. घोषणा / वचन : Declaration/Undertaking:

मैं / हम पुष्टि करते हैं कि मैं / हम जो खाता यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में खोलने जा रहा हूँ / रहे हैं और मैं / हमने उनसे संबंधित बैंक द्वारा प्रदान की जाने वाली अंतरराष्ट्रीय डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग / एसएमएस बैंकिंग / टेली बैंकिंग आदि सुविधाओं से संबंधित नियम प्राप्त, पढ़ और समझ लिये हैं मैं उनमें दी गयी शर्तों और निबंधनों तथा समय-समय उनमें होने वाले तथा बैंक के नोटिस बोर्ड पर या वेबसाइट पर प्रदर्शित होने वाले संशोधनों से आबद्ध होने के लिये सहमत हूँ / हैं। मैं / हम समझता / समझते हूँ / हैं कि बैंक स्वविवेक से मुझे / हमें कोई नोटिस दिये बिना किसी भी सेवा को अंशतः या पूर्णतः रोक सकता है, मैं / हम सहमत हूँ / हैं कि बैंक समय-समय पर लागू सेवाप्रभार मेरे / हमारे खाते में डेबिट कर सकता है, मैं / हम एतद्वारा घोषित करता हूँ / करते हैं कि ऊपर दी गयी सूचनाएं मेरी जानकारी के अनुसार सही व सत्य हैं, मुझ / हम को ज्ञात है कि इन सुविधाओं का प्रयोग उन शर्तों और निबंधनों के अंतर्गत होता है जो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का साइट <http://www.unionbankonline.co.in>, पर प्रदर्शित हैं और मैंने / हमने उसे देख लिया है, मैं / हम समझता / समझते हूँ / हैं कि बैंक स्वविवेक से मुझे / हमें कोई नोटिस दिये बिना किसी भी सेवा को अंशतः या पूर्णतः रोक सकता है, मैं / हम सहमत हूँ / हैं कि बैंक समय-समय पर लागू सेवाप्रभार मेरे / हमारे खाते में डेबिट कर सकता है, मैं / हम एतद्वारा घोषित करता हूँ / करते हैं कि खाते में संव्यहार वैधानिक स्रोतों से किया जायेगा और खाते का उपयोग किसी कानून विरुद्ध कार्य के लिये नहीं किया जायेगा मैं / हम एतद्वारा घोषित करता हूँ / करते हैं कि ऊपर दी गयी सूचनाएं मेरी जानकारी के अनुसार सही व सत्य हैं।

"I/we confirm having received, read and understood the accounts rules and hereby agree to be bound by the terms and conditions outlined in these rules which govern the account (s) which I/we am/are opening with Union Bank of India and amendments there to made from time to time will be binding on me/us when displayed by the bank on its notice board or on its website and those relating to various services offered by the bank including but not limited to International debit card/Internet banking/SMS banking/Mobile banking/Tele-banking and other facilities listed in this form. I/we am/are aware that the usage of these facilities is governed by the terms and conditions which are displayed on <http://www.unionbankonline.co.in>, the site maintained by Union Bank of India and I/we have reviewed the contents of the same. I/We understand that the bank may at its absolute discretion discontinue any of the services completely or partially without any notice to me/us. I/we agree that the bank may debit my account for service charges as applicable from time to time. I/we declare that the transactions in the account will be made from legitimate sources only the account will not be used for any purpose contrary to law. I/we declare that the information furnished above is true and correct to the best of my knowledge."

हस्ताक्षरकर्ता 1 (मोहर सहित)  
Signatory 1 (with seal)

हस्ताक्षरकर्ता 2 (मोहर सहित)  
Signatory 2 (with seal)

हस्ताक्षरकर्ता 3 (मोहर सहित)  
Signatory 3 (with seal)

हस्ताक्षरकर्ता 4 (मोहर सहित)  
Signatory 4 (with seal)

खाते का नाम  
Name of Account

खाता सं.  
Account No

शाखा  
Branch

खाते के परिचालन का तरीका.  
Mode of Operation of Account

एकल  
Singly

संयुक्त  
Jointly

संकल्प के अनुसार (निर्दिष्ट करें)  
As per Resolution (Specify)

नाम Name :

नाम Name :

अपने पासपोर्ट आकार का फोटो चिपकाएं और फोटो पर और साथ ही नीचे दिए गए बॉक्स में भी हस्ताक्षर करें (मोहर सहित)

Paste your passport size photograph and sign across the photograph and also in the box provided below (with seal)

अपने पासपोर्ट आकार का फोटो चिपकाएं और फोटो पर और साथ ही नीचे दिए गए बॉक्स में भी हस्ताक्षर करें (मोहर सहित)

Paste your passport size photograph and sign across the photograph and also in the box provided below (with seal)

नाम Name :

नाम Name :

अपने पासपोर्ट आकार का फोटो चिपकाएं और फोटो पर और साथ ही नीचे दिए गए बॉक्स में भी हस्ताक्षर करें (मोहर सहित)

Paste your passport size photograph and sign across the photograph and also in the box provided below (with seal)

अपने पासपोर्ट आकार का फोटो चिपकाएं और फोटो पर और साथ ही नीचे दिए गए बॉक्स में भी हस्ताक्षर करें (मोहर सहित)

Paste your passport size photograph and sign across the photograph and also in the box provided below (with seal)

दिनांक  
Date

D D M M Y Y Y Y

स्थान  
Place

स्वीकारकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर  
Sign of Admitting officer

अनुमोदनकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर  
Sign of Approving officer

केवल बैंक के उपयोग के लिये. For Bank Use Only.

सलग्न संख्या No. of enclosures : \_\_\_\_\_

मैं एतद्वारा घोषित करता हूँ कि खाता खोलने का फार्म सभी प्रकार से पूर्ण है तथा सभी संबंधित दस्तावेज प्राप्त कर लिये गये हैं और उनका सत्यापन कर लिया गया है।

I hereby declare that this account opening form is complete in all respects and relevant documents have been obtained and verified.

नाम: Name: \_\_\_\_\_

कर्मचारी क्र.: Emp.No.: \_\_\_\_\_

दिनांक  
Date

D D M M Y Y Y Y

हस्ताक्षर:  
Signature:

मैं \_\_\_\_\_ (शाखा प्रमुख / परिचालन प्रमुख का नाम), कर्मचारी क्र.: \_\_\_\_\_ एतद्वारा खाता खोलने के लिए प्रधिकृत करता हूँ।

I \_\_\_\_\_ (Name of Branch Head/Operations Head), Employee No.: \_\_\_\_\_ hereby authorize to open the account.

पी.ए. क्र.: P.A. No.: \_\_\_\_\_

दिनांक  
Date

D D M M Y Y Y Y

हस्ताक्षर:  
Signature: